

राज्यीय राजकीय विभाग के द्वारा  
प्रशिक्षण विवरण (एच ईवीय रिपोर्ट रिपोर्ट)  
पूर्वी असम नगर, कुटुंडगुप्त कोट के पीठ, शहदरा, दिल्ली-110032

सं.एफ.5(1)15/11/यूटीरी/ल./प्रभा-1

दिनांक :

### परिचय

प्रशिक्षण विवेशालय, यूटीरीएसएल का यह दायित्व है कि वह विभिन्न राज्य के अधिकारियों / कर्मचारियों को उन उपलब्ध के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें। इस विवेशालय ने प्रयोगभूत कार्यक्रमों के बुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विनिहित किया है। इस संदर्भ में एक दिवसीय "राजभाषा हिन्दी में लेखन दक्षता" का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 04.07.2011 को आयोजित किया जायेगा।

पाठ्यक्रम का महत्व – हिन्दी भारत की राजभाषा है तथा राष्ट्रीय राजभाषी क्षेत्र, दिल्ली राजकार की भी राजभाषा है। दिल्ली राजकार में दक्षिणी भारत व उत्तर पूर्वी भारत के अधिकारी/कर्मचारी भी कार्यरत हैं। सभी कर्मचारियों को राजभाषी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों के निवारण और हिन्दी के प्रयोग में दक्षता प्राप्त करने की अवश्यकता होती है। इस प्रशिक्षण के पश्चात् प्रशिक्षणार्थी सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने में अधिक सक्षम हो सकेंगे तथा अधिक से अधिक उसे व्यवहार में ला सकेंगे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्षित लाभार्थी – इस पाठ्यक्रम से दिल्ली राजकार, स्थानीय निकाय, स्वायत्तशासी संरक्षण, दिल्ली राजकार के सभी उपक्रम व निगम के सभी अधिकारी/कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

पाठ्यक्रम का उद्देश्य – पाठ्यक्रम की समाप्ति पर उपरोक्त सभी अधिकारी/कर्मचारी सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने में सक्षम हो जायेंगे तथा अधिक से अधिक इसे व्यवहार में ला सकेंगे।

### पाठ्यक्रम की विशाय सूची –

1. हिन्दी व्याकरण व भुद्ध लेखन
2. भासन/सरकार में हिन्दी भाष्यों व वाक्यों का प्रयोग
3. हिन्दी भाषा में टिप्पण एवं आलेखन, ज्ञापन एवं अनुस्मारक इत्यादि
4. हिन्दी भाषा में आदेश, अधिसूचना, पत्र लेखन व अर्ध-शास्त्रीय पत्र

पाठ्यक्रम की पद्धति – पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण हिन्दी में प्रतीय व अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा दिया जायेगा। सामान्यतः प्रशिक्षण व्याख्यान द्वारा व पावर प्याइट प्रेजेन्टेशन द्वारा दिया जाता है। पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणार्थीयों को प्रश्न पूछने एवं अपने संशय दूर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

**पात्र दस्तावेज के लिए निर्देश —**

1. अप्पेरेंट में 40 प्रति-वर्ष उमेर के साथ का जनरिक है।
2. प्राप्त प्राप्ति विवरण प्रशिक्षणार्थी को पहले रथान दिया जायेगा।
3. नाम - उत्तम के बाबीडेटा अपर्यंकों को नियांरित प्रक्रम (फार्म रेजिस्ट्रेशन) पर 28.06.2011
4. नियन प्रशिक्षणार्थी के नाम नियांक 28.06.2011 तक प्राप्त नहीं होगे, उन प्रशिक्षणार्थी को उपकारण के उपकारण के लिए उभयं आये जब उनको उनके नामोंकार
5. दिल्ली के बाहर के प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के लिए उभयं आये जब उनको उनके नामोंकार स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त हो जाए।

**अन्य निर्देश —**

1. प्रशिक्षणार्थी पाठ्यक्रम के विषय में आधारभूत सूचनाओं से अवगत होकर आये।
2. प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के विषय में विभागीय आदेश, रिसोर्ट इत्यादि के विषय में जानकारी व प्रतिलिपि भी स्थथ लेकर आये जिससे कि व्याख्याता व निदेशालय लाभान्वित हो सके।
3. प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के दौरान अपना सोबाइल फोन बन्द रखें।
4. प्रशिक्षणार्थी को यहि प्लॉन-पत्र दिया जाता है तो वह उसे पूरा करें तथा साथ ही फीड बैक फार्म भी भर कर दें।
5. प्रशिक्षणार्थी किसी भी सूचना एवं रप्पेटीकरण के लिए अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकते हैं।
6. संपर्क व प्रशाचार के लिए दूरभाष संख्या—22308552, फैक्स संख्या—22308556 व ईमेल [dutcs@nic.in](mailto:dutcs@nic.in) & [adtrg@utes.delhi@nic.in](mailto:adtrg@utes.delhi@nic.in) पर संपर्क करें।

कमल  
(नील कमल)

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)

सं.एफ.5(1)15/11/यूटी.सी.एस./प्र.मा.—1/13830-997  
प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित —

दिनांक : १३-०६-११

1. सभी विभागाध्याक्ष स्थानीय एवं स्वायत्तशासी संस्थान, दिल्ली सरकार के सभी उपकार एवं निगम
2. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधान सचिव (प्रशिक्षण एवं मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव), दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली—110002
4. सम्पदा अधिकारी, प्रशिक्षण निदेशालय को विभाग की वैबसाइट पर लाते हैं।

कमल  
(नील कमल)

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)

राष्ट्रीय भाषाओं कोड फ़िल्म र  
 प्रशिक्षण विद्यालय (राजभाषा सिविल एन्ड इन्डस्ट्रीज)  
 पूर्वी अंचल चौक, कड़वलालूक कोट दो पाल, राहदार, दिल्ली-110032

सं.एफ.5(1) ३/११/चूटारा, एस./प्र.४०.-१

फ़िल्म :

सीखने की इकाई – प्रशिक्षण पाठ्यक्रम “राजभाषा हिन्दी में लेखन दशवा”

पाठ्यक्रम के पैकेज का नाम	प्रार्थनामूलक कार्यक्रमलिङ्ग राजभाषा हिन्दी में लेखन दशवा एक दिवसीय (०४.०७.२०११)			
पाठ्यक्रम का नाम	सीखने की इकाई – प्रशिक्षण पाठ्यक्रम “राजभाषा हिन्दी में लेखन दशवा”			
पाठ्यक्रम की अवधि	सत्रों की संख्या प्रशिक्षण भाषा वॉस कोडिनेटर का नाम			
सत्रों की संख्या	प्रशिक्षण भाषा वॉस कोडिनेटर का नाम			
प्रशिक्षण भाषा	श्री नील कमल			
वॉस कोडिनेटर का नाम	प्रशिक्षण की विधि			
आईपीटीव	विषय	प्रशिक्षण की विधि	प्रशिक्षण रामग्री	प्रशिक्षण सहायता
सत्र - १	हिन्दी व्याकरण व शुद्ध लेखन			
हिन्दी व्याकरण का ज्ञान	<ul style="list-style-type: none"> <li>• हिन्दी व्याकरण वाक्य विवार</li> <li>• वाक्य गुण</li> <li>• अन्वय</li> <li>• किया और कर्ता का अन्वय</li> <li>• किया और कम का अन्वय</li> <li>• संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय</li> <li>• विशेष और विशेषण</li> <li>• वाक्य विग्रह</li> <li>• शुद्ध वाक्य रचना व विराम चिन्ह</li> </ul>	व्याख्यान		
सत्र - २	शासन/सरकार में हिन्दी शब्दों व वाक्यों का प्रयोग			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• मुद्रावरे व लोकोक्तियों</li> <li>• शासन सरकार में प्रयोग आने वाले शब्द व वाक्य</li> </ul>	व्याख्यान		
सत्र - ३	हिन्दी टिप्पण एवं लेखन इयन व अनुस्मारक			
हिन्दी में सरकारी कामकाज में सुधार	<ul style="list-style-type: none"> <li>• हिन्दी में टिप्पण की विधि</li> <li>• लेखन की विधि</li> <li>• ज्ञापन का प्रारूप व लेखन</li> </ul>	व्याख्यान		

	<p><b>संकेत</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• अन्य के प्राप्ति व सूचना की विधि</li> </ul>		
<b>सत्र - 4</b>	<p>हिन्दी भाषा में अदेश, आदिसूचना, पत्र-लेखन, अर्थ-शास्त्रकीय पत्र लेखन</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अदेश लेखन की विधि</li> <li>• अदिसूचना लेखन की विधि</li> <li>• अर्थशास्त्रकीय पत्र लेखन की विधि</li> </ul>	वार्तालाल	